

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद मुरादाबाद



दिनांक-19.07.2022

1-अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फोटो डालने का आरोपी , अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार,थाना भगतपुर:-

अवगत कराना है कि उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना भगतपुर द्वारा मय हमराही पुलिबल के सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ अपनी फोटो अपलोड करने के आरोपी मोबीन पुत्र जबर खान निवासी ग्राम मानपुर उर्फ मालवाड़ा थाना भगतपुर,मुरादाबाद को मय एक अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में आरोपी के विरूद्ध थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0-166/2022 धारा- 9(1)क(1) आयुध अधिनियम व 25(2) आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।

2.युवती को पैप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर पीला देने, दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुये रूपयों की मांग करने तथा गले में से सोने की चैन तोड़कर भाग जाने का आरोपी गिरफ्तार,थाना गलशहीद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2022 को वादिनी निवासी थाना गलशहीद क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी को पैप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देने उसके बाद वादिनी के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुये रूपये की मांग कर वादिनी को ब्लैकमेल करने तथा गले में से सोने की चैन तोड़कर भाग जाने के सम्बन्ध में दी तहरीर के आधार पर थाना गलशहीद पर मु0अ0सं0-85/2022 धारा-376/328/509/506/384/420/120बी/452/354/356 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। उक्त के संबंध में आज दिनांक 19-07-22 को उ0नि0 श्री योगेश कुमार सिरोही थाना गलशहीद द्वारा मय हमराही पुलिबल के आरोपी समीर पुत्र शफीक निवासी भोलू की लाईन तीन ज्यारत वाली गली थाना गलशहीद, मुरादाबाद को गिरफ्तार कर कब्जे से एक मोबाईल बरामद किया गया।

3.लूट/चोरी की योजना बनाते हुये 04 आरोपीगण गिरफ्तार,थाना ठाकुरद्वारा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2022 को उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिसबल के आरोपीगण 1-सद्न पुत्र दिलावर 2-रिजवान पुत्र शमशाद 3-अंकित आर्य पुत्र शिव प्रसाद 4-सुभाष पुत्र अमर सिंह निवासीगण कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को लूट/चोरी की योजना बनाते हुये गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण सद्न,रिजवान,अंकित आर्य के कब्जे से क्रमशः एक-एक अवैध चाकू भी बरामद किये गये। इस संबंध में सभी आरोपीगण के विरूद्ध थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0- 356/2022 धारा

398/401 भाद0वि0 तथा बरामदा अवैध चाकू के आधार मु0अ0सं0- 357/22 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम सददन,मु0अ0सं0-358/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रिजवान,मु0अ0सं0-359/22 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम अंकित आर्य पंजीकृत किये गये।

4.दो किलो गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा:-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2022 को उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिबल के आरोपी अजहरुदीन पुत्र छुननन शाह निवासी कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद को 02 किलो0 गांजा के साथ गिरफ्तार किया । इस सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-355/22 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।